



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-03.08.2022

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का वांछित शातिर अभियुक्त कृष्णानन्द सिंह उर्फ विक्की गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0233/2022 धारा 417,420 भा0द0वि0 व 66D आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित/फरार अभियुक्त कृष्णानन्द सिंह उर्फ विक्की पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी-उमरीकला पो0 भोपालपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ को राय साहब का बगीचे के पास से आज दिनांक-03.08.2022 को समय 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 नफ़र अभियुक्तगण 1-सतेन्द्र कुमार पुत्र राम सुहाग निवासी भोपालपुर उमरी कलां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 2-राहुल कुमार पुत्र हरिवंश निवासी-भोपालपुर उमरी कलां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक-30.07.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कृष्णानन्द सिंह उर्फ विककी पुत्र स्व० तेजबहादुर सिंह निवासी-उमरीकला पो० भोपालपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- 1000/-रुपया नगद बरामद ।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त कृष्णानन्द सिंह उर्फ विककी ने बताया कि करीब एक महीना पहले मैंने अपने साथियो सतेन्द्र कुमार व राहुल कुमार के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक पहड़िया से एटीएम बदलकर 42000/- रुपये निकाले थे जिसमें 14000/-, 14000/- हजार रुपये का बटवारा किये थे उसी का 1000/- रुपया बचा है शेष पैसा खर्च हो गया है । मेरे दोनो साथी पहले ही जेल जा चुके है । आज मैं अपने आत्मसमर्पण हेतु न्यायालय जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-0946/2014 धारा 392, 411, 506 भादवि थाना कासिमाबाद जि० गाजीपुर
2. मु०अ०सं०-1025/2014 धारा 379, 411 भादवि थाना कासिमाबाद जि० गाजीपुर
3. मु०अ०सं०-1091/2014 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(नि०) अधिनियम थाना कासिमाबाद जि० गाजीपुर
4. मु०अ०सं०-0498/2014 धारा 143, 147, 307, 411, 414 भादवि थाना बरेसर जि० गाजीपुर
5. मु०अ०सं०-0501/2014 धारा 3/25 आयुध अधिनियम भादवि थाना बरेसर जि० गाजीपुर
6. मु०अ०सं०-0233/2022 धारा 417, 420 भादवि व 66 D IT ACT थाना लालपुर कमि० वाराणसी
7. मु०अ०सं०-0108/2022 धारा 420, 406 भादवि थाना सारनाथ कमि० वाराणसी
8. मु०अ०सं०-0084/2022 धारा 420, 406 भादवि थाना सारनाथ कमि० वाराणसी
9. मु०अ०सं०-0059/2022 धारा 420, 406 भादवि थाना सारनाथ कमि० वाराणसी
10. मु०अ०सं०-0086/2022 धारा 420 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी
11. मु०अ०सं०-0089/2022 धारा 419, 420 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी
12. मु०अ०सं०-0077/2022 धारा 419, 420 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी
13. मु०अ०सं०-0118/2022 धारा 420 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी
14. मु०अ०सं०-0309/2022 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कैण्ट कमि० वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ०नि० प्रकाश सिंह चौहान चौकी प्रभारी पहड़िया थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. हे०का० कमल सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. का० भरत राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का० नीरज पाण्डेय थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. का० दिवाकर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी